



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 जेष्ठ, 1941 (श०)

संख्या- 443 राँची, बुधवार,

12 जून, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

6 जून, 2019

संख्या-5/आरोप-1-41/2017-2575 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालाँग, चतरा के पद पर कार्यावधि में डोभा निर्माण योजना का ऑन लाईन डी०पी०आर० स्वीकृत होने के बावजूद संचिका में प्रशासनिक स्वीकृति देने के एवज में परिवादी संतोष कुमार से 6,000/- (छः हजार) रुपये रिश्वत की माँग करने, FTO Sign में विलंब करने, दायित्व निर्वहन में लापरवाही बरतने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-447, दिनांक 10.07.2018 द्वारा संलग्न प्रपत्र-क में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः मो० आलम के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा मो० आलम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. मो० आलम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

5. मो० आलम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु स्थापना उप समाहर्ता, चतरा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162	मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लावालोंग, चतरा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
